

May 16, 2025

The Manager Corporate Relationship Department **BSE Limited** Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code-533267

Fax No.: 022-2272 3121/1278/1557/3354

The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai - 400 051

NSE Scrip Symbol: CANTABIL and Series:

Fax No.: 022-26598237/38

Sub: Newspaper advertisement (s)

Ref: Financial Results for the Quarter ended on March 31, 2025

Dear Sir/Ma'am.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement of Financial Results of the Company for the Quarter ended on March 31, 2025, published in the Economic Times and Navbharat Times on May 16, 2025.

You are requested to take the above on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Cantabil Retail India Limited

POONAM Digitally signed by POONAM CHAHAL DN: CellN, on-Personal, pseudonym-mvina2.pg/97/00454dbj3ynk; 25.420=7/4d4dd033f618tb/98dec234959 CHAHAL/

Poonam Chahal

Company Secretary & Compliance Officer

FCS No. 9872

Encl: as above

Interest Subsidy May Return to Help MSMEs Compete in Global Market

EXPORT PROMOTION MISSION More focused credit to boost MSMEs' competitiveness amid tariff uncertainties


Banikinkar Pattanayak & Anuradha Shukla

New Delhi: The government is considering a proposal to reintroduce interest subsidy on credit to exporters-especially the micro, small and medium enterprises (MSMEs)—under the proposed Export Promotion Mission to help bolster their competitiveness amid global tariff uncertainties, senior officials said.

In December 2024, the government had stopped an interest equalisation scheme, under which eligible exporters were getting rupee export credit at subsidised rates, prompting MSME exporters to seek cheaper loans amid global headwinds. The latest proposal is aimed at making the interest aid "more targeted and focused", one of the officials said.

The commerce department has informed its expenditure counterpart that competing at the global level without assistance would be extremely difficult for MSMEs, who get limited credit at much higher rates than their peers in the export market, he said.

The two departments are in talks on the



issue and a decision will be taken in due course, said the official quoted above. Despite the recent cuts, the reporate re-

mains at 6%. Most exporters are getting loans at 8-12% interest, with MSMEs particularly facing high rates. Most of the eligible exporters under the equalisation scheme were getting interest subsidy to the tune of 3%. The Export Promotion Mission, anno-

unced in the FY26 budget with an outlay of ₹2,250 crore, could be an umbrella scheme that will absorb various extant

export initiatives.

The targeted interest support that is being planned will also complement the government's efforts to spur manufacturing under another mission proposed in the latest budget, the officials said.

Export bodies have called for heightened support to beat a demand slowdown in some advanced countries and uncertainties caused by the Trump administration's tariff policies.

They also seek sustained support to take advantage of opportunities that may

come in India's way if New Delhi hammers out a trade deal with the US soon, on top of a recent one with the UK.

Under the erstwhile interest equalisation scheme, introduced in 2015, the government had allocated ₹2,482 crore for FY25, lower than ₹3,700 crore a year earlier, primarily because it was not extended beyond December 2024.

About 85% of the beneficiaries of the interest equalisation scheme were MSMEs, the officials said.

India's merchandise exports remained flat at \$437 billion last fiscal, as global demand remained subdued. The World Trade Organisation last month predicted goods trade volume to fall 0.2% this year, down sharply from its October 2024 projection of a 3% expansion, citing the impact of the new US tariff policies.

To be sure, the US and China this week announced a deal to temporarily trim the extra tariffs imposed on each other. Presenting the budget for FY26, finance minister Nirmala Sitharaman had said: "We will set up an Export Promotion Mission, with sectoral and ministerial targets, driven jointly by the ministries of commerce, MSME and finance".

187 Startups Get Nod for Income Tax Exemption

Our Bureau

New Delhi: In a significant boost to India's startup ecosystem, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has approved 187 startups for income tax exemption under the revamped Section 80-IAC of the Income Tax Act, the government said Thursday. The tax benefit allows eligible startups a 100% income tax deduction on profits for any three consecutive years within a 10-year window from the date of incorporation.

The scheme is designed to support emerging businesses in their formative years, encouraging innovation, job creation and wealth generation.

"The decision came during the 80th meeting of the Inter-Ministerial Board (IMB), held on April 30," the commerce and industry ministry B

Of the total approvals, 75 startups we-

re cleared during the 79th IMB meeting and 112 during 80th such meeting. With this, over 3,700 startups have now been granted exemptions since the scheme's inception.

In the budget for 2025-26, the government extended the eligibility window for startups to claim benefits under Section 80-IAC. Startups incorporated before April 1, 2030 are now eligible to apply, giving more time and opportunity to new ventures to benefit from this financial relief.

"The revised evaluation framework introduced by DPIIT has made the application process more structured and transparent. Complete applications are now reviewed within 120 days, ensuring faster decisionmaking and reducing procedural delays," the ministry said.

Startups that were not approved in the latest round have been encouraged to reassess and refine their applications.

Railways Digitises Health Referrals for 66 lakh People

Twesh Mishra

Railways has significantly revamped its healthcare administration, manda-

Delhi:

Indian

New

ting digital referrals by indochouse tors. These referrals are needed if a patient is sent for treatment at one of the roughly 1,500 hospitals empanelled with the Health Department of the Railways for cashless

treatment. This move is expected to impact around 66 lakh existing beneficiaries under the Indian Railway Medical Manual (IRMM). Of these, 12.5lakh are serving Indian Railway employees while 18 lakh are re-

tired. The re-

maining are

dependents.

TRADE GAP HIGHEST SINCE NOVEMBER 2024

Goods Exports at 6-month High in April, **Trade Deficit Widens on Imports Surge**

Exports to US rose to \$8.42b last month as higher tariffs on Chinese goods made Indian exports competitive

Our Bureau

New Delhi: Buoyed by a 27% growth in exports to the US, India's merchandise exports rose a six-month high of 9.03% yearon-year to \$38.49 billion in April.

A faster growth of 19.12% in imports to \$64.91 billion, though, led to a five-month high trade deficit of \$26.42 billion in April compared with \$21.54 billion in March. "We opened FY26 with a bang," commer-

ce secretary Sunil Barthwal said, adding that the country would maintain this export momentum this fiscal despite all the external factors.

year in October 2024, but fell for the next fo-

Top Performers April growth (Y-oY, %) Engg Goods Electronics 39.5 Gems & Jewellery Petroleum Product Readymade Garment 14.4

ur months in a row. They rose 0.67% in March. The trade deficit last month was the highest since November 2024. Exports to the US rose to \$8.42 billion last

month from \$6.61 billion in April 2024. On the impact of 10% American tariffs on India's exports, officials said the outbound shipments got a boost because of higher ta-The country's exports had grown 17.2% on riffs on China, which made Indian goods more competitive.

"It is premature to say what were the factors but prima facie, it looks like the differential tariffs across the world played a part," an official said. The outbound shipments of electronics in-

cluding smartphones and engineering goods rose 39.51% and 11.28% to \$3.69 billion and \$9.51 billion, respectively.

Exports to the UAE, China and Australia also rose in April. Crude oil imports in April increased 25.6% to \$20.7 billion while gold imports were up by 4.86% to \$3.09 billion.

"The increase in imports, particularly of capital goods and energy inputs, reflects improving domestic demand and capacity expansion," said SC Ralhan, president of Federation of Indian Export Organisations (FIEO).

Apparel Export Promotion Council (AEPC) Secretary General Mithileshwar Thakur said India's apparel exports grew 14.43% despite ongoing global economic challenges, currency fluctuations and the uncertainty surrounding US reciprocal tariff policy.

Barthwal said exporters have achieved resiliency in their businesses.

FIRST OFFICIAL MONTHLY LABOUR FORCE DATA

Unemployment Rate at 5.1% in Apr, Urban Areas Lag at 6.5% State of Employment

Labour force participation rate was 34.2% last month among women while it was 77.7% among men

Our Bureau

New Delhi: India's unemployment rate among men at 5.2% in April was slightly higher than among women at 5%, according to the country's first official monthly unemployment data released on Thursday.

Overall, the national unemployment rate was 5.1% in April with rural areas at 4.5% outperforming urban centres at 6.5%, as per the Periodic Labour Force Survey (PLFS) monthly bulletin released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).

"The rural-urban gap is indicative of the job creation pressures in the urban areas," said Paras Jasrai, associate director at India Ratings and Research (Ind-Ra).

The Labour force participation rate (LFPR)—share of people aged 15 and above working or actively seeking work-remained significantly low among women at only 34.2% in April against 77.7% among males. Overall, LFPR stood at 55.6% last month. The data is based on the short-term cur-

rent weekly status (CWS) approach, which measures LFPR and unemployment rate based on whether an individual worked or sought work for at least one hour during the seven days preceding the survey date. The LFPR was higher in rural areas at 58% than 50.7% in urban areas. The survey covered 89,434 households and 380,838 people across rural and urban areas.

Labour force participation rate Unemployment rate (in %) 5 Rural

The government revamped the PLFS methodology from January 2025.

Under the new design, the PLFS will now be released monthly in a move towards real-time employment monitoring. Annual reports will now be based on the calendar year rather than the earlier July-June period.

The April data shows that the female unemployment rate was higher among youth at 14.4% than 13.6% for males. Overall, it was 13.8% for those aged 15-29 years. Across regions, while the youth unemployment rate was higher for females than males in urban areas, it is the opposite in rural areas.

"This could be due to higher female preferences for education in urban areas than rural areas and low employment opportunities in urban areas than rural areas for females," noted Jarai.

Central Trade Unions Defer Nationwide Strike Against Labour Codes to July 9 joint platform decided to reschedule the

New Delhi: The joint platform of 10-central trade unions, barring the RSS-affiliate Bhartiya Mazdoor Sangh, have deferred their proposed nationwide general strike on May 20 to July 9, 2025 citing the prevailing situation throughout the country. However, the joint platform has called for demonstrations across the state capitals at industry level on May 20. "After due consideration of the prevai-

ling situation throughout the country, the

nationwide general strike from May 20 to July 9, 2025 against implementation of Labour Codes and other legitimate

demands of the workers, farmers and people in general," it said in a statement on Thursday. The 10 central trade unions included AITUC, HMS, CITU, INTUC, AI-

UTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF and UTUC.—Our Bureau

PM to Chair Niti Governing **Council Meeting this Month**

Yogima Seth

New Delhi: Niti Aayog will hold the 10th meeting of its governing council under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi later this month, people aware of the development told ET.

The council, the apex body of the Aayog, includes all state chief ministers, lieutenant governors of union territories, special invitees, and several union ministers as well as members and top officials of the Aayog. The last meeting of the council was held in July 2024. While the agenda of the meeting is

being firmed up, it is anticipated sustainable growth, sources said. that the council will focus on promoting entrepreneurship, employment and skilling to leverage the country's demographic dividend. The Centre had in 2024 announced

the employment-linked incentive scheme including the upgradation of industrial training institutes (ITIs) with focus on employment generation and skilling. At the meeting, states will be nudged to take up implementation of these schemes while focusing on enhancing ease of doing business, people cited above said. The idea is to help India transition

from a middle-income country to a high-income country with focus on women-led development. Emphasis could be laid on reforming the governance model in sta-

tes to encourage citizen participation with focus on reforms and transformation for inclusive and

Besides, the Centre may urge states to form Aayog-like institutions at the state level to help develop and align their growth agenda with the vision for a Viksit Bharat by 2047.

MEETING AGENDA Council expected to focus

on entrepreneurship, jobs & skilling to leverage demographic dividend

सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड CENTRAL MINE PLANNING & DESIGN INSTITUTE LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited) Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 8340008, Jharkhand, India

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR SELECTION/APPOINTMENT OF COST **AUDIT FIRM (INCLUDING LLP) OF CENTRAL** MINE PLANNING & DESIGN INSTITUTE LIMITED FOR COST AUDIT

M/s Central Mine Planning & Design Institute Limited invites Expression of Interest for selection/appointment of Cost Audit Firm (including LLP) for three years starting from Financial Year 2025-26.

Please visit the website of M/s Central Mine Planning & Design Institute Limited - www.cmpdi.co.in/www.eprocure.gov.in for details from 16/05/2025.

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY TENDER NOTICE FOR PROVISION

OF SIGNALLING & TELECOM WORK No. 20 - SNT - PROJ - III/ BSP/ 491. Date: 13.05.2025

Name of Work: Provision of Centralized Electronic interlocking and indoor/ outdoor Signaling & Telecom work in relation to replacement of Panel Interlocking with Electronic interlocking at BALAPUR HALT (BPRH) Station of Bilaspur Division of South East Central Railway.

(Rupees Five Crore Eighty Lakh Eighty Three Thousand Five Hundred Forty Seven Only). EMD ₹4,40,400/- (Rupees Four Lakh Forty Thousand Four Hundred Only). Tender Closing Date: Up to 15:00 Hrs. on 03.06.2025. For further details/purchase of

Tender Value : ₹5,80,83,547.00/-

tender documents, eligibility criteria & the complete details for "e-tender" document, please contact website https://www.ireps.gov.in. The tender is floated by S&T Project Unit department. Dy. CSTE/PROJECT-III

CPR/10/53 S.E.C. Railway, Bilaspur. ■ South East Central Railway X@secrall

Due date,

(JV of IOCL and TSRC Corporation, Taiwan) Website: www.isrpl.co.in, Email:varinder.kumar@isrpl.co.in CIN: U25190DL2010PTC205324

TENDER NOTICE Sealed Tenders are invited for following Service Contracts:

Authority for Tender Description ARC related to MECHANICAL STATIC &

FABRICATION JOBS for 2 years duration at ISRPL Panipat Canteen services contract for 2 years duration at ISRPL Panipat

Tender documents may be downloaded from website www.isrl.co.in /Download / Tender Doc /

Time & Place Submission Manager 30.05.2025 Materials, Contract cell 1300 hrs at (varinder.kumar Panipat/ @isrpl.co.in) online

respective tender or direct by link http://isrpl.co.in/tenders docs.html In case of any corrigendum related to published Tender Notice such as bid submission date etc. same may be checked at ISRPL Website as per above mentioned link.

Head-Materials Plant: Opp. Naphtha Cracker Polymer Terminal Gate, PO Panipat Refinery, Panipat (Har) 132140. Ph No: 0180-2529146/9115/9110/9100, Mobile No: 70870-26202



(₹ In Lakhs) Year Ended Year Ended Quarter Ended **Particulars** 31 March 31 March 31 December 31 March 31 March No. 2024 2024 2025 2025 2024 Unaudited Unaudited Unaudited Audited Audited Total Income from Operations 22,248.82 22,496.78 19,584.73 72,951.45 62,028.95 Net Profit for the period (before tax, Exceptional 2,992.79 4,519.13 9,821.06 7,530.45 and Extraordinary items) 2,031.94 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items) 2,992.79 7,679.99 2,181.48 9,821.06 4,519.13 Net Profit for the period (after Tax, Exceptional 6,222.29 2,251.49 3,438.81 1,835.01 7,486.31 and Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) 2,224.53 3,477.23 7,500.04 6,212.21 1,803.19 Equity share capital (Face Value of Rs. 2/- each) 1,672.76 1,672.76 1,672.76 1,672.76 1,672.76 30,973.13 Reserves excluding revaluation reserves 37,636.78 Earnings per share (of ₹ 2/- each) (not annualized for quarters) 7.60 4.11 2.22 8.95 a) Basic 2.69 2.69 2.22 8.95 7.60 Diluted 4.11

Notes:

Place: New Delhi

Date: 15 May 2025

The above is an extract of the detailed format for the Quarter and Year ended March 31, 2025. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

NSE-https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/get_quote/GetQuote.jsp?symbol=CANTABIL&illiquid=0&smeFlag=0&itpFlag=0 BSE-https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/ad2c9503-66d0-423b-9f78-77b5166d1a22.pdf Company Website-http://www.cantabilinternational.com/investor_annual&quarterlyresult.html

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the

The financial results for the quarter and year ended 31 March 2025 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Cantabil Retail India Limited ("the Company") at their respective meetings held on 15 May 2025. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified audit opinion on these financial results.

Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The business activities of the Company predominantly falls within a single primary business segment viz. "Retail", accordingly there are no

separate reportable business segments as per Ind AS 108 "Operating Segments". 5 The figures for the quarter ended 31 March 2025 and 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year and the unaudited figures upto the nine months ended 31 December 2024 and 31 December 2023, respectively, which were subject to limited review by the statutory auditors.

The Board of Directors at their meeting held on 10 February 2025 has declared and approved the payment of interim dividend @ ₹ 0.50/- per equity share (25%) of face value of ₹ 2/- per share.

The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation. The impact of such reclassification/regrouping is not material to the financials results.



For Cantabil Retail India Limited Vijay Bansal

Chairman and Managing Director

DIN 01110877

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995, Website: www.cantabilinternational.com

Tel: +91-11-41414188, Email: info@cantabilinternational.com

Voda-Ideaकी याचिका

कोर्ट ने गुरुवार को Vodafone

Idea (VIL) की 30,000 करोड़

रुपये के एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस

रेवेन्य) बकाये में छट मांग वाली

याचिका पर सुनवाई करने को हामी

भर दी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की

अगुवाई वाली बेंच के सामने

वोडाफोन आइडिया की तरफ से

सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने

कंपनी ने अपने एजीआर बकाये में

ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज

लगभग 30,000 करोड़ रुपये की छट

मांगी है। रोहतगी ने कहा कि टेलीकॉम

सेक्टर में कंपटीशन बनाए रखने के

लिए याचिकाकर्ता कंपनी का बचना

बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि हाल

ही में ब्याज के बकाये को इक्विटी में

बदलने के बाद सरकार की कंपनी में

49% हिस्सेदारी हो गई है। बेंच 19

नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई कर

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले

आइंडिया सहित दुरसंचार कंपनियों की

अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई।

फटाफट खबरें

अप्रैल में 5.1% रही बेरोज़गारी दर

पीटीआई, नई दिल्ली : सरकार के ताजा आंकड़ों से देश में बेरोजगारी का हालात सामने आया है। अप्रैल में कुल बेरोजगारी दर 5.1% रही। पुरुषों में ये दर 5.2%, जबकि महिलाओं में 5% रही। ये आंकडे पहली बार महीनेवार आधार पर जारी किए गए हैं। अब तक ये आंकड़े तिमाही और सालाना ही

ITC होटल्स के मुनाफे में इजाफा

NBT रिपोर्ट, मुंबई : आईटीसी होटल्स का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में 19 प्रतिशत बढ़कर 257.85 करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी राजस्व बढ़ने के कारण हुई। वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में कंपनी ने 216 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

सेबी ने VCL को किया बैन

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने SME कंपनी Varyaa Creations Ltd (VCL) को शेयर बाजार से बैन कर दिया है। आरोप है कि कंपनी ने अपने IPO से जुटाए गए पैसे में गड़बड़ी की हैं।बधवार को सेबी ने ये फैसला सुनाया। Varyaa Creations कीमती धातुओं का थोक व्यापार करती है। ये कंपनी 30 अप्रैल, 2024को BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई थी।

क्वालकॉम का **Snapdragon 7** Gen 4 लॉन्च

■ NBT रिपोर्ट, सैन डिएगो क्वालकॉम ने ७ सीरीज लाइनअप का नया सदस्य Snapdragon 7 Gen 4 लॉन्च किया है। यह नया मोबाइल प्लैटफॉर्म मिड-सेगमेंट यूजर्स को प्रीमियम अनुभव देगा, जिनमें अडवास्ड कैमरा फीचर्स, हाई–परफॉर्मेंस गेमिंग और डिवाइस-लेवल जेनरेटिव AI क्षमताएं शामिल हैं I CPU प्रदर्शन में 27% और GPU रेंडरिंग में 30% सुधार हुआ है, एआई प्रदर्शन में 65% की बढ़ोतरी है।

'पैसिंजर गाडियों की बिक्री बढ़ी'

पीटीआई, नई दिल्ली : देश में पैसिजर वाहनों की थोक बिक्री अप्रैल में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 3,48,847 यूनिट हो गई। उद्योग निकाय संगठन SIAM ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अप्रैल 2024 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,35,629 यूनिट रही थी। सोसायटी ऑफ इंडियन मैन्यफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल (SIAM) के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, पैसिजर वीइकल सेंगमेंट ने अप्रैल 2025 में 3.49 लाख यूनिट्स की अपनी अब तक की सर्वोधिक बिक्री दर्ज की ।

सात महीने के टॉप पर इंडेक्स

सेंसेक्स 82,530 पर बंद, निफ्टी ने भी 25,062 का आंकड़ा छुआ

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती गिरावट के बाद करीब डेढ़ फीसदी की छलांग लगा दी। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयरों में खुब खरीदारी हुई। अमेरिका और भारत के बीच जीरो टैरिफ ट्रेड डील की खबरों से निवेशकों का भरोसा बढा। BSE सेंसेक्स 1200 पॉइंट (1.48%) चढ़कर 82,530 पर बंद हुआ। ये सात महीने का नया उच्चतम स्तर है। NSE निफ्टी ने भी 395 पॉइंट (1.60%) की बढ़त के साथ 25,062 का आंकड़ा छुआ। सात महीने बाद पहली बार निफ्टी 25,000 के पार पहुंच गया। पिछली बार 15 अक्टूबर 2024 को निफ्टी 25,000 के पार गया था।

सेक्टर-वार देखें तो निफ्टी फाइनैंशल 1.3%, ऑटो 1.9%, IT 1.2% और मेटल 1.7% ऊपर चले गए। स्मॉल-कैप 0.94 और मिड-कैप में भी लगभग 0.67% की बढ़ोतरी देखी गई। कुल मार्केट वैल्यू में 5.05 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ और ये 439.94 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।



डिफेंस शेयरों में तेज़ी बरकरार

डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। Sika Interplant का शेयर 9.26%, Astra Microwave का का 9.23%, Axiscades टेक्नोलॉजीज का 5%, डाटा पैटर्न्स का 3.30%, पारस डिफेंस का 3.12%, HAL का 2%, BEL (1.74%) और मिश्र धातु निगम (1.55%) का शेयर बीएसई में बढ़त के साथ बंद हुआ।

गोल्ड ETF में 14% तक की गिरावट

जोरदार तेजी के बाद अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में 14% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों से पता चला है कि SBI गोल्ड ETF में अपने 52 वीक के उच्चतम स्तर से सबसे अधिक लगभग 14% की गिरावट आई है। उसके बाद 360 वन गोल्ड ETF और टाटा गोल्ड ETF हैं. जिनमें लगभग 12-12% की गिरावट आई है।

सोने के दाम में 1,800 रु. की कमी

सोने की कीमतों में गुरुवार को

भारी गिरावट देखी गई। राष्टीय

राजधानी के जलर्स बाजार में गरुवार को सोने की कीमत 1,800 रुपये गिरकर 95,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय जुलर्स संघ ने यह जानकारी दी है। संघ के अनुसार, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,800 रुपये गिरकर 94,600 रुपये प्रति १० ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। बुधवार को 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 96,850 रुपये और 96,400 रुपये प्रति १० ग्राम पर बद हुआ था। वहीं, इंडिया बुलियन एंड जूलर्स असोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 2,375 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 93,859 रुपये से 91,484 रुपये पर आ गई।

एयरटेल का रीयल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली डिजिटल फ्रॉड और स्पैम के बढ़ते खतरे के बीच भारती एयरटेल ने 'फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन' लॉन्च किया है, जो रीयल टाइम में सभी प्लेटफॉर्म्स – जैसे ईमेल, वट्सऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फेसबुक और SMS – पर चलने



और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। एयरटेल के वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विहल ने कहा, 'हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां भोले-भाले ग्राहकों को साइबर अपराधियों ने ठग लिया। हमारा यह समाधान ग्राहकों को इंटरनेट पर सुरक्षित अनुभव देने में मदद करेगा। यह सेवाँ फिलहाल हरियाणा में शुरू की गई है और जल्द ही देशभर में शुरू की

पर सुनवाई करेगा SC

■ वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड रुपये के एजीआर बकाये में छुट की मांग की है।

 सुप्रोंम कोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति जताई है। सुनवाई 19 नवंबर को हो सकती है।

■ VI का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कंपनी का बचना जरूरी

 ब्याज के बकाये को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की कंपनी में 49% हिस्सेदारी।

जिनमें एजीआर बकाये के हिसाब में कथित गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने आदेश की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया था। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस साल 28 भारती एयरटेल और वोडाफोन जनवरी को 2021 के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

BluSmart मामले के बाद RBI की ई-वॉलेट्स पर नज़र कंपनी बंद होने के बाद यूजर्स पैसे नहीं निकाल पा रहे थे

■ NBT रिपोर्ट : ऑल-इलेक्ट्रिक वाहन (EV) टैक्सी सर्विस BluSmart के अचानक बंद होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इलेक्ट्रिक वीइकल (EV) कंपनियों से जुड़े कुछ डिजिटल वॉलेट्स की बारीकी से जांच कर रहा है। इसकी वजह ये है कि ब्लूस्मार्ट के बंद होने से यूजर्स अपने अकाउंट में फंसे पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोपों के बाद हुए इन घटनाक्रमों ने उन युजर्स के लिए सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है, जो ऐप पर लेनदेन करने के लिए 'क्लोज्ड-लप वॉलेट' में पैसे डालते हैं। इन वॉलेट्स में पैसा डालकर लोग ऐप के जरिए टैक्सी बुक करते हैं या चार्जिंग स्टेशन पर भुगतान करते हैं।

ब्लुस्मार्ट का ई-वॉलेट एक 'क्लोज्ड-लूप' वॉलेट था। इसका मतलब है कि इसमें डाला गया पैसा सिर्फ



तेजी से बढ़ते डिजिटल सर्विस इकोसिस्टम में बहुत बढ़ गए हैं। आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले ओपन-सिस्टम वॉलेट्स के उलट, इन पर सेंट्रल बैंक की सीधी निगरानी नहीं होती। इससे प्लैटफॉर्म के फेल होने पर ये ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं।

जानकारों का कहना है कि आरबीआई EV चार्जिंग स्टेशन चलाने वाली उसी ऐप के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता कंपनियों और ऐसे ही अन्य EV सेवा देने है। ये क्लोज्ड-लूप वॉलेट्स भारत के) वाले ऐप्स से बातचीत कर रही है। इसका कंपनी के बंद होने पर भी पैसे सेफ रहें।

मकसद ये जानना है कि युजर्स को कोई नुकसान न हो रहा हो। मामले से जुड़े लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये सारी बातचीत अभी अनौपचारिक तरीके से चल रही है।

टीओआई के मुताबिक, हजारों यूजर्स ने एयरपोर्ट और शहर के अंदर की राइड्स बुक करने के लिए ब्ल्स्मार्ट के वॉलेट में पैसे पहले से ही डाल रखे थे। लेकिन अब वो पैसा वापस नहीं निकाल पा रहे हैं और ना ही उसे कहीं और ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अप्रैल में ऑपरेटर ने ग्राहकों से कहा कि पैसे वापस करने में 90 दिन तक का समय लग सकता है।

सुत्रों का कहना है कि सेंट्रल बैंक आने वाले हफ्तों में संबंधित पार्टियों के साथ मीटिंग पर विचार कर रहा है। बैंक कंस्युमर बैलेंस के लिए एस्क्रो अरेंजमेंट को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संपर्क बदल गया हो तो इससे दावेदारों जरूरी है। इसका फायदा यह होगा कि या उनके नॉमिनी व्यक्तियों का पता

बैंक खाते में नॉमिनेशन, ईमेल-फोन ज़रूरी? Unclaimed डिपॉजिट कम करने के लिए RBI ने मांगे सुझाव

■ NBT रिपोर्ट : डिपॉजिटर्स के अहम बातें क्या है लक्ष्यः बैंकों में

हितों की और बेहतर सरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों से मौजूदा बैंक नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी का ईमेल और फोन नंबर जोड़ने के सुझाव मांगे हैं। 2024 के बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल के पास होने के बाद बैंक अकाउंट होल्डर्स अब चार नॉमिनी रख सकते हैं। मामले से वाकिफ दो अधिकारियों ने बताया कि ये सुझाव पिछले महीने मांगे गए थे। इस मामले में सरकार से भी राय ली जाएगी। क्योंकि इसके लिए 🕻 1985 के बैंकिंग कंपनीज

नॉमिनेशन फॉर्म के फॉर्मेंट को अपडेट क्या होगा फायदा? : एक अधिकारी ने बताया कि इससे फाइनैंशल सेक्टर खासकर बैंकों में बिना दावे वाले डिपॉजिट कम होंगे।

अनक्लेमड डिपॉजिट कम करने में मदद मिलेगी। अकाउंट होल्डर का पता या संपर्क बदल गया हो तो नॉमिनी को ढूंढ पाना आसान होगा।

(नामांकन) नियमों के तहत तय कहा कि डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट व्यक्तियों को सुचित किया जाए और वे लॉकर और सेफ कस्टडी आइटम्स के

क्या है कानून?: अधिकारी ने अगर अकाउंट होल्डर का पता या में बैंकिंग बिल में भी संशोधन किया है। नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी के संपर्क विवरण को अपडेट करके यह लगाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी

व्या है कमी: मौजूदा नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए जगह नहीं है।

वया हैं अधिकार: 1985 के नियमों के मुताबिक, डिपॉजिटर्स की मौत पर बैंक बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे नॉमिनी को बकाया राशि दे सकते हैं।

लिए मौजुदा नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी व्यक्ति के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए जगह नहीं है।

आगे कहा कि सरकार ने हाल ही

अपना बकाया हासिल कर सकें। मार्च में, संसद ने बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2024 पास किया था। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट की धारा 45ZA, 45ZC और 45ZE में संशोधन किया ताकि चार तक नॉमिनी रखने की अनुमति मिल सके।

क्या है सुविधा? : यह Q डिपॉजिटर्स और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए अधिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।

लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं। खासकर डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सेफ्टी लॉकर के संबंध में। बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) नियम 1985 बैंकों को डिपॉजिटर्स की मौत की स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे बिना या कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों को वेरिफाई किए बिना नॉमिनी को बकाया राशि देने की अनुमति देता है।

क्या है समस्या ? : अधिकारी ने

कहा कि नॉमिनी का विवरण इकट्ठा करने में सहमित की समस्या हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या होगा अगर नॉमिनी इसमें सहज नहीं है और क्या बैंक बिना सहमति के उनसे संपर्क कर सकता है? उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए और विचार-विमर्श की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें नो योर कस्टमर (KYC) फॉर्मेंट में बदलाव भी शामिल हैं। वैसे बैंक अकाउंट में 10 साल या उससे अधिक समय से पड़े हुए डिपॉजिट आरबीआई के DEA फंड में

रोशनी नाडर ने कहा, जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट बड़ी उपलब्धि

OSAT यूनिट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि साथ है और हमें योगदान देकर खुशी हो रही है।

■ **वि. नई दिल्ली** : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने HCL हमारी साझेदारी में HCL का बेहतर इंजीनियरिंग ग्रुप और Hon Hai Technology Group अनुभव, टेक्नोलॉजी का ज्ञान और Foxconn की (Foxconn) को उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट सेमीकंडक्टर क्षमता शामिल है। इससे कंस्यमर

के पास एक OSAT (आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर) इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को असेंबली एंड टेस्ट) फैक्टी लगाने की मंजरी दे दी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह फैक्टी हर महीने है। ये 3706 करोड़ रुपये की फैक्ट्री रइंडिया 20,000 वेफर्स बनाएगी और बढ़ती तकनीकी मांग सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत एक बड़ी उपलब्धि को पूरा करने में मदद करेगी। इससे 3,500 से है।HCL ग्रुप की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 🛮 अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। हम सेमीकंडक्टर ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार का से जुड़े हुनर को बढ़ाने और भारत के लोगों को इस शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने Foxconn के साथ क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार करने पर भी ध्यान हमारे जॉइंट वेंचर के जिरए जेवर में सेमीकंडक्टर दे रहे हैं। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन के

🕲 पूर्वोत्तर रेलवे र्ड-टेंडिंग निविदा सचना भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मण्डल रेल प्रबन्धक (विद्युत/सामान्य), पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन (ई—टेंडरिंग) के माध्यम से 'एकल" निविदायें आमंत्रित करते हैं। **क्र.सं**. निविदा सूचना संख्याः ई—निविदा-एल–03–25–26; **कार्य का नाम (हिन्दी)**: ट्रेन नंबर 12537/38 (बापूधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस), 15103/04 (बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस.... 05193 / 94 (छपरा—शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन स्पेशल एक्सप्रेस) की ग्रीब्स कॉटन मेक डीजी सेट (कुल-9 अदद पॉवर कार) की पॉवर कारों के लिए 2 साल के हेतु ए—चेक और एस्कोर्टिंग ड्यूटीज का शेड्यूल रखरखाव।; **अनुमानित लागत** (₹ में): ₹2,08,31,952.15; अमानत राशि (₹ में): ₹2,54,200/-; कार्य समापन का समयः 24 माहः निविदा समापन की तिथि एव **समयः** 06.06.2025 को 14:30 बजे; **निविदा** खोलने की तिथि एवं समय: 06.06.2025 को 14:30 बजे; क्र.सं. **2.; निविदा सूचना** संख्याः ई-निविदा-एल-04-25-26; कार्य **का नाम (हिन्दी)**: ट्रेन नंबर 12537/38 (बापुधाम सूपरफास्ट एक्सप्रेस), 15103/04 (बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस.... 05193/94 (छपरा– शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन स्पेशल एक्सप्रेस) की किर्लोस्कर ऑइल एन्जीनस लिमिटेट (KOEL) मेक डीजी सेट (कुल-7 अदद पॉवर कार) की पॉवर कारों के लिए 2 साल के हेतु ए-चेक और एस्कोर्टिंग ड्यूटीज का शेड्यूल रखरखाव।; अनुमानित लागत (₹ में)ः ₹1,62,03,093.47; अमानत राशि (₹ में)ः ₹2,31,000/-; कार्य समापन का समयः 24 माह, निविदा समापन की तिथि एवं समयः 06.06.2025 को 14:30 बजे; निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 06.06.2025 को 14:30 बजे; क्र.सं. 3.; निविदा सूचना संख्याः ई--निविदा--एल--05--25--26; **कार्य का नाम** (हिन्दी): ट्रेन नंबर 12537 / 38 (बापुधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस), 15103/04 (बनारस इँटरसिटी एक्सप्रेस... 05193/94 (छपरा–शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन स्पेशल एक्सप्रेस) की कम्मिस मेक डीजी सेट (कल-14 अदद पॉवर कार) की पॉवर कारों के लिए 2 साल के हेतु ए—चेक और एस्कोर्टिंग ड्यूटीज का शेड्यूल रखरखाव।; अनुमानित लागत (₹ में)ः ₹3,24,06,078.00; अमानत राशि (₹ में)ः ₹3,12,000/-; कार्य समापन का समयः 24 माह: निविदा समापन की तिथि एवं समय:

www.ireps.gov.in पर जायें। वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/सामान्य वाराणसी मजाधि / विद्यत-33 ट्रेनों में बीड़ी / सिगरेट न पियें

06.06.2025 को 14:30 बजे; निविदा खोलने

की तिथि एवं समयः 06.06.2025 को

14:30 बजे। उपरोक्त ई-निविदा कार्यों के

पूर्ण विवरण एवं निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड, गाजियाबाद। त्रांक-265/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0सं0-60/2025-26

<u>ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना-02</u>

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गाजियाबाद द्वारा निम्नलिखित कार्य की प्रतिषत दर पर निवदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में क्लास ''ए. बी. सी व डी'' मार्ग/भवः श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्य की निविदा डाल सकता है। निविदादात से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज सं0-3 में ॲकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र⁄ जनपद	योजना का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में) जी0एस0टी0 सहित	बिड सिकुरिटि (इ०एम०डी०) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यं पूर्ण करने की अवधि वर्षाऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	वार्ड-सं0-51 काशीराम आवास योजना में गेट नं0-02 से गेट नं0-03 तक काली सड़क एवं दोनो तरफ इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	15.06	0.31	854.00	04 माह
2	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	बी-6 से बी-17 (वार्ड-14 विजयनगर) डेंस रोड एवं दोनों तरफ इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	17.43	0.35	854.00	04 माह
3	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	ग्राम गढीं में मेरठ रोड से वरदान हॉस्पिटल तक सोदान के प्लॉट से मोड़ तक) इंटरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	25.00	0.50	854.00	04 माह
4	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	वाई-35 अकबरपुर बहरामपुर में वेंदप्रकाश के मकान से मनोज चौधरी के मकान तक एवम साईड की कृष्णपाल व ब्रहमपाल वाली गलियों में सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण कार्य।	24.98	0.50	854.00	04 माह
5	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	वार्ड नं0-1 बागू क्रिश्चयनगर बागू में विमल के मकान से बाला यादव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.85	0.26	854.00	04 माह
6	मुरादनगर/ गाजियाबाद	विधायक नि0 मुरादनगर	वार्ड-30 रतन एक्लेव गली नं0-3 में (सुनीता के प्लॉट से गाँतम के मकान तक) इं0लो0 टा0 व नाली कार्य।	11.96	0.24	766.00	04 माह
7	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	सांसद नि0 गाजियाबाद	पॉडवनगर आवासीय कॉलोनी में टी पोइंट से मंदिर तक इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	27.835	0.60	944.00	04 माह
8	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	सांसद नि0 गाजियाबाद	मेरठ रोड मनन धाम मेंदिर के कोने से मोरटा में शमशान घाट तक इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	32.595	0.66	944.00	04 माह
9	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	उड्डयन विभाग	कम्पोजिट विद्यालय शमशेर, गाजियाबाद में क्लास रूम, टायलेट, छत मरम्मत एव नवीनीकरण आदि का कार्य	34.00	0.68	944.00	04 माह

- ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें प्रकाशित होने की तिथि 29.05.2025 से पूर्व।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें प्रारम्भ होने की तिथि 29.05.2025 प्रात: 10.00 बजे से। ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 05.06.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे तक।
- ई-निविदा की खोलने की तिथि एवं समय:- 06.06.2025 को अपरान्ह 12.30 बजे।
- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-10 के ऑनलाइन के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भं समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निवदादाताओं को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से निगरानी रखें औ नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर जाए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाईट <u>http://etender.up.nic.in</u> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।

UPID 233697 dt 14.05.2025,

(श्याम सन्दर) अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गाजियाबाद।

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." REVENUE Growth of Growth of Growth of **Q4 FY25** Q4 FY25 **Q4 FY25** 13% YoY 31% YoY 23% YoY Growth of Growth of Growth of FY 2025 FY 2025 FY 2025 17% YoY 26% YoY 20% YoY Key Financial Highlights (Growth in %)

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ In Lakhs)

			Quarter Ended	Year Ended	Year Ended	
S. No.	Particulars	31 March 2025	31 December 2024	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	22,248.82	22,496.78	19,584.73	72,951.45	62,028.95
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	2,992.79	4,519.13	2,031.94	9,821.06	7,530.45
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,992.79	4,519.13	2,181.48	9,821.06	7,679.99
4	Net Profit for the period (after Tax, Exceptional and Extraordinary items)	2,251.49	3,438.81	1,835.01	7,486.31	6,222.29
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	2,224.53	3,477.23	1,803.19	7,500.04	6,212.21
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 2/- each)	1,672.76	1,672.76	1,672.76	1,672.76	1,672.76
7	Reserves excluding revaluation reserves				37,636.78	30,973.13
8	Earnings per share (of ₹ 2/- each) (not annualized for quarters)					
	a) Basic	2.69	4.11	2.22	8.95	7.60
	b) Diluted	2.69	4.11	2.22	8.95	7.60

Notes:

Place: New Delhi

Date: 15 May 2025

The above is an extract of the detailed format for the Quarter and Year ended March 31, 2025. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

 $NSE-https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/get_quote/GetQuote.jsp?symbol=CANTABIL\&illiquid=0\&smeFlag=0\&itpFlag=0&$ BSE-https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/ad2c9503-66d0-423b-9f78-77b5166d1a22.pdf Company Website-http://www.cantabilinternational.com/investor_annual&quarterlyresult.html

The financial results for the guarter and year ended 31 March 2025 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Cantabil Retail India Limited ("the Company") at their respective meetings held on 15 May 2025. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified audit opinion on these financial results. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the

Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The business activities of the Company predominantly falls within a single primary business segment viz. "Retail", accordingly there are no separate reportable business segments as per Ind AS 108 "Operating Segments"

The figures for the quarter ended 31 March 2025 and 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year and the unaudited figures upto the nine months ended 31 December 2024 and 31 Decemeber 2023, respectively, which were subject to limited review by the statutory auditors.

The Board of Directors at their meeting held on 10 February 2025 has declared and approved the payment of interim dividend @ ₹ 0.50/- per equity share (25%) of face value of ₹ 2/- per share

The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation. The impact of such reclassification/regrouping is not material to the financials results.

For Cantabil Retail India Limited Chairman and Managing Director



DIN 01110877

Vijay Bansal

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995, Website: www.cantabilinternational.com Tel: +91-11-41414188, Email: info@cantabilinternational.com

Voda-Ideaकी याचिका

कोर्ट ने गुरुवार को Vodafone

Idea (VIL) की 30,000 करोड़

रुपये के एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस

रेवेन्य) बकाये में छट मांग वाली

याचिका पर सुनवाई करने को हामी

भर दी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की

अगुवाई वाली बेंच के सामने

वोडाफोन आइडिया की तरफ से

सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने

कंपनी ने अपने एजीआर बकाये में

ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज

लगभग 30,000 करोड़ रुपये की छट

मांगी है। रोहतगी ने कहा कि टेलीकॉम

सेक्टर में कंपटीशन बनाए रखने के

लिए याचिकाकर्ता कंपनी का बचना

बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि हाल

ही में ब्याज के बकाये को इक्विटी में

बदलने के बाद सरकार की कंपनी में

49% हिस्सेदारी हो गई है। बेंच 19

नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई कर

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले

आइंडिया सहित दुरसंचार कंपनियों की

अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई।

फटाफट खबरें

अप्रैल में 5.1% रही बेरोज़गारी दर

पीटीआई, नई दिल्ली : सरकार के ताजा आंकड़ों से देश में बेरोजगारी का हालात सामने आया है। अप्रैल में कुल बेरोजगारी दर 5.1% रही। पुरुषों में ये दर 5.2%, जबकि महिलाओं में 5% रही। ये आंकडे पहली बार महीनेवार आधार पर जारी किए गए हैं। अब तक ये आंकड़े तिमाही और सालाना ही

ITC होटल्स के मुनाफे में इजाफा

NBT रिपोर्ट, मुंबई : आईटीसी होटल्स का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में 19 प्रतिशत बढ़कर 257.85 करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी राजस्व बढ़ने के कारण हुई। वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में कंपनी ने 216 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

सेबी ने VCL को किया बैन

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने SME कंपनी Varyaa Creations Ltd (VCL) को शेयर बाजार से बैन कर दिया है। आरोप है कि कंपनी ने अपने IPO से जुटाए गए पैसे में गड़बड़ी की हैं।बधवार को सेबी ने ये फैसला सुनाया। Varyaa Creations कीमती धातुओं का थोक व्यापार करती है। ये कंपनी 30 अप्रैल, 2024को BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई थी।

क्वालकॉम का **Snapdragon 7** Gen 4 लॉन्च

■ NBT रिपोर्ट, सैन डिएगो क्वालकॉम ने ७ सीरीज लाइनअप का नया सदस्य Snapdragon 7 Gen 4 लॉन्च किया है। यह नया मोबाइल प्लैटफॉर्म मिड-सेगमेंट यूजर्स को प्रीमियम अनुभव देगा, जिनमें अडवास्ड कैमरा फीचर्स, हाई–परफॉर्मेंस गेमिंग और डिवाइस-लेवल जेनरेटिव AI क्षमताएं शामिल हैं I CPU प्रदर्शन में 27% और GPU रेंडरिंग में 30% सुधार हुआ है, एआई प्रदर्शन में 65% की बढ़ोतरी है।

'पैसिंजर गाडियों की बिक्री बढ़ी'

पीटीआई, नई दिल्ली : देश में पैसिजर वाहनों की थोक बिक्री अप्रैल में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 3,48,847 यूनिट हो गई। उद्योग निकाय संगठन SIAM ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अप्रैल 2024 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,35,629 यूनिट रही थी। सोसायटी ऑफ इंडियन मैन्यफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल (SIAM) के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, पैसिजर वीइकल सेंगमेंट ने अप्रैल 2025 में 3.49 लाख यूनिट्स की अपनी अब तक की सर्वोधिक बिक्री दर्ज की ।

सात महीने के टॉप पर इंडेक्स

सेंसेक्स 82,530 पर बंद, निफ्टी ने भी 25,062 का आंकड़ा छुआ

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती गिरावट के बाद करीब डेढ़ फीसदी की छलांग लगा दी। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयरों में खुब खरीदारी हुई। अमेरिका और भारत के बीच जीरो टैरिफ ट्रेड डील की खबरों से निवेशकों का भरोसा बढा। BSE सेंसेक्स 1200 पॉइंट (1.48%) चढ़कर 82,530 पर बंद हुआ। ये सात महीने का नया उच्चतम स्तर है। NSE निफ्टी ने भी 395 पॉइंट (1.60%) की बढ़त के साथ 25,062 का आंकड़ा छुआ। सात महीने बाद पहली बार निफ्टी 25,000 के पार पहुंच गया। पिछली बार 15 अक्टूबर 2024 को निफ्टी 25,000 के पार गया था।

सेक्टर-वार देखें तो निफ्टी फाइनैंशल 1.3%, ऑटो 1.9%, IT 1.2% और मेटल 1.7% ऊपर चले गए। स्मॉल-कैप 0.94 और मिड-कैप में भी लगभग 0.67% की बढ़ोतरी देखी गई। कुल मार्केट वैल्यू में 5.05 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ और ये 439.94 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।



डिफेंस शेयरों में तेज़ी बरकरार

डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। Sika Interplant का शेयर 9.26%, Astra Microwave का का 9.23%, Axiscades टेक्नोलॉजीज का 5%, डाटा पैटर्न्स का 3.30%, पारस डिफेंस का 3.12%, HAL का 2%, BEL (1.74%) और मिश्र धातु निगम (1.55%) का शेयर बीएसई में बढ़त के साथ बंद हुआ।

गोल्ड ETF में 14% तक की गिरावट

जोरदार तेजी के बाद अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में 14% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों से पता चला है कि SBI गोल्ड ETF में अपने 52 वीक के उच्चतम स्तर से सबसे अधिक लगभग 14% की गिरावट आई है। उसके बाद 360 वन गोल्ड ETF और टाटा गोल्ड ETF हैं. जिनमें लगभग 12-12% की गिरावट आई है।

सोने के दाम में 1,800 रु. की कमी

सोने की कीमतों में गुरुवार को

भारी गिरावट देखी गई। राष्टीय

राजधानी के जलर्स बाजार में गरुवार को सोने की कीमत 1,800 रुपये गिरकर 95,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय जुलर्स संघ ने यह जानकारी दी है। संघ के अनुसार, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,800 रुपये गिरकर 94,600 रुपये प्रति १० ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। बुधवार को 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 96,850 रुपये और 96,400 रुपये प्रति १० ग्राम पर बद हुआ था। वहीं, इंडिया बुलियन एंड जूलर्स असोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 2,375 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 93,859 रुपये से 91,484 रुपये पर आ गई।

एयरटेल का रीयल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली डिजिटल फ्रॉड और स्पैम के बढ़ते खतरे के बीच भारती एयरटेल ने 'फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन' लॉन्च किया है, जो रीयल टाइम में सभी प्लेटफॉर्म्स – जैसे ईमेल, वट्सऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फेसबुक और SMS – पर चलने



और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। एयरटेल के वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विहल ने कहा, 'हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां भोले-भाले ग्राहकों को साइबर अपराधियों ने ठग लिया। हमारा यह समाधान ग्राहकों को इंटरनेट पर सुरक्षित अनुभव देने में मदद करेगा। यह सेवाँ फिलहाल हरियाणा में शुरू की गई है और जल्द ही देशभर में शुरू की

पर सुनवाई करेगा SC

■ वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड रुपये के एजीआर बकाये में छुट की मांग की है।

 सुप्रोंम कोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति जताई है। सुनवाई 19 नवंबर को हो सकती है।

■ VI का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कंपनी का बचना जरूरी

 ब्याज के बकाये को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की कंपनी में 49% हिस्सेदारी।

जिनमें एजीआर बकाये के हिसाब में कथित गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने आदेश की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया था। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस साल 28 भारती एयरटेल और वोडाफोन जनवरी को 2021 के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

BluSmart मामले के बाद RBI की ई-वॉलेट्स पर नज़र कंपनी बंद होने के बाद यूजर्स पैसे नहीं निकाल पा रहे थे

■ NBT रिपोर्ट : ऑल-इलेक्ट्रिक वाहन (EV) टैक्सी सर्विस BluSmart के अचानक बंद होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इलेक्ट्रिक वीइकल (EV) कंपनियों से जुड़े कुछ डिजिटल वॉलेट्स की बारीकी से जांच कर रहा है। इसकी वजह ये है कि ब्लूस्मार्ट के बंद होने से यूजर्स अपने अकाउंट में फंसे पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोपों के बाद हुए इन घटनाक्रमों ने उन युजर्स के लिए सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है, जो ऐप पर लेनदेन करने के लिए 'क्लोज्ड-लप वॉलेट' में पैसे डालते हैं। इन वॉलेट्स में पैसा डालकर लोग ऐप के जरिए टैक्सी बुक करते हैं या चार्जिंग स्टेशन पर भुगतान करते हैं।

ब्लुस्मार्ट का ई-वॉलेट एक 'क्लोज्ड-लूप' वॉलेट था। इसका मतलब है कि इसमें डाला गया पैसा सिर्फ



तेजी से बढ़ते डिजिटल सर्विस इकोसिस्टम में बहुत बढ़ गए हैं। आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले ओपन-सिस्टम वॉलेट्स के उलट, इन पर सेंट्रल बैंक की सीधी निगरानी नहीं होती। इससे प्लैटफॉर्म के फेल होने पर ये ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं।

जानकारों का कहना है कि आरबीआई EV चार्जिंग स्टेशन चलाने वाली उसी ऐप के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता कंपनियों और ऐसे ही अन्य EV सेवा देने है। ये क्लोज्ड-लूप वॉलेट्स भारत के) वाले ऐप्स से बातचीत कर रही है। इसका कंपनी के बंद होने पर भी पैसे सेफ रहें।

मकसद ये जानना है कि युजर्स को कोई नुकसान न हो रहा हो। मामले से जुड़े लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये सारी बातचीत अभी अनौपचारिक तरीके से चल रही है।

टीओआई के मुताबिक, हजारों यूजर्स ने एयरपोर्ट और शहर के अंदर की राइड्स बुक करने के लिए ब्ल्स्मार्ट के वॉलेट में पैसे पहले से ही डाल रखे थे। लेकिन अब वो पैसा वापस नहीं निकाल पा रहे हैं और ना ही उसे कहीं और ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अप्रैल में ऑपरेटर ने ग्राहकों से कहा कि पैसे वापस करने में 90 दिन तक का समय लग सकता है।

सुत्रों का कहना है कि सेंट्रल बैंक आने वाले हफ्तों में संबंधित पार्टियों के साथ मीटिंग पर विचार कर रहा है। बैंक कंस्युमर बैलेंस के लिए एस्क्रो अरेंजमेंट को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संपर्क बदल गया हो तो इससे दावेदारों जरूरी है। इसका फायदा यह होगा कि या उनके नॉमिनी व्यक्तियों का पता

बैंक खाते में नॉमिनेशन, ईमेल-फोन ज़रूरी? Unclaimed डिपॉजिट कम करने के लिए RBI ने मांगे सुझाव

■ NBT रिपोर्ट : डिपॉजिटर्स के अहम बातें क्या है लक्ष्यः बैंकों में

हितों की और बेहतर सरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों से मौजूदा बैंक नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी का ईमेल और फोन नंबर जोड़ने के सुझाव मांगे हैं। 2024 के बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल के पास होने के बाद बैंक अकाउंट होल्डर्स अब चार नॉमिनी रख सकते हैं। मामले से वाकिफ दो अधिकारियों ने बताया कि ये सुझाव पिछले महीने मांगे गए थे। इस मामले में सरकार से भी राय ली जाएगी। क्योंकि इसके लिए 🕻 1985 के बैंकिंग कंपनीज

नॉमिनेशन फॉर्म के फॉर्मेंट को अपडेट क्या होगा फायदा? : एक अधिकारी ने बताया कि इससे फाइनैंशल सेक्टर खासकर बैंकों में बिना दावे वाले डिपॉजिट कम होंगे।

अनक्लेमड डिपॉजिट कम करने में मदद मिलेगी। अकाउंट होल्डर का पता या संपर्क बदल गया हो तो नॉमिनी को ढूंढ पाना आसान होगा।

(नामांकन) नियमों के तहत तय कहा कि डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट व्यक्तियों को सुचित किया जाए और वे लॉकर और सेफ कस्टडी आइटम्स के

क्या है कानून?: अधिकारी ने अगर अकाउंट होल्डर का पता या में बैंकिंग बिल में भी संशोधन किया है। नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी के संपर्क विवरण को अपडेट करके यह लगाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी

व्या है कमी: मौजूदा नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए जगह नहीं है।

वया हैं अधिकार: 1985 के नियमों के मुताबिक, डिपॉजिटर्स की मौत पर बैंक बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे नॉमिनी को बकाया राशि दे सकते हैं।

लिए मौजुदा नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी व्यक्ति के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए जगह नहीं है।

आगे कहा कि सरकार ने हाल ही

अपना बकाया हासिल कर सकें। मार्च में, संसद ने बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2024 पास किया था। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट की धारा 45ZA, 45ZC और 45ZE में संशोधन किया ताकि चार तक नॉमिनी रखने की अनुमति मिल सके।

क्या है सुविधा? : यह Q डिपॉजिटर्स और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए अधिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।

लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं। खासकर डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सेफ्टी लॉकर के संबंध में। बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) नियम 1985 बैंकों को डिपॉजिटर्स की मौत की स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे बिना या कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों को वेरिफाई किए बिना नॉमिनी को बकाया राशि देने की अनुमति देता है।

क्या है समस्या ? : अधिकारी ने

कहा कि नॉमिनी का विवरण इकट्ठा करने में सहमित की समस्या हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या होगा अगर नॉमिनी इसमें सहज नहीं है और क्या बैंक बिना सहमति के उनसे संपर्क कर सकता है? उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए और विचार-विमर्श की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें नो योर कस्टमर (KYC) फॉर्मेंट में बदलाव भी शामिल हैं। वैसे बैंक अकाउंट में 10 साल या उससे अधिक समय से पड़े हुए डिपॉजिट आरबीआई के DEA फंड में

रोशनी नाडर ने कहा, जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट बड़ी उपलब्धि

OSAT यूनिट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि साथ है और हमें योगदान देकर खुशी हो रही है।

■ **वि. नई दिल्ली** : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने HCL हमारी साझेदारी में HCL का बेहतर इंजीनियरिंग ग्रुप और Hon Hai Technology Group अनुभव, टेक्नोलॉजी का ज्ञान और Foxconn की (Foxconn) को उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट सेमीकंडक्टर क्षमता शामिल है। इससे कंस्यमर

के पास एक OSAT (आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर) इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को असेंबली एंड टेस्ट) फैक्टी लगाने की मंजरी दे दी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह फैक्टी हर महीने है। ये 3706 करोड़ रुपये की फैक्ट्री रइंडिया 20,000 वेफर्स बनाएगी और बढ़ती तकनीकी मांग सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत एक बड़ी उपलब्धि को पूरा करने में मदद करेगी। इससे 3,500 से है।HCL ग्रुप की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 🛮 अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। हम सेमीकंडक्टर ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार का से जुड़े हुनर को बढ़ाने और भारत के लोगों को इस शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने Foxconn के साथ क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार करने पर भी ध्यान हमारे जॉइंट वेंचर के जिरए जेवर में सेमीकंडक्टर दे रहे हैं। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन के

🕲 पूर्वोत्तर रेलवे र्ड-टेंडिंग निविदा सचना भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मण्डल रेल प्रबन्धक (विद्युत/सामान्य), पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन (ई—टेंडरिंग) के माध्यम से 'एकल" निविदायें आमंत्रित करते हैं। **क्र.सं**. निविदा सूचना संख्याः ई—निविदा-एल–03–25–26; **कार्य का नाम (हिन्दी)**: ट्रेन नंबर 12537/38 (बापूधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस), 15103/04 (बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस.... 05193 / 94 (छपरा—शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन स्पेशल एक्सप्रेस) की ग्रीब्स कॉटन मेक डीजी सेट (कुल-9 अदद पॉवर कार) की पॉवर कारों के लिए 2 साल के हेतु ए—चेक और एस्कोर्टिंग ड्यूटीज का शेड्यूल रखरखाव।; **अनुमानित लागत** (₹ में): ₹2,08,31,952.15; अमानत राशि (₹ में): ₹2,54,200/-; कार्य समापन का समयः 24 माहः निविदा समापन की तिथि एव **समयः** 06.06.2025 को 14:30 बजे; **निविदा** खोलने की तिथि एवं समय: 06.06.2025 को 14:30 बजे; क्र.सं. **2.; निविदा सूचना** संख्याः ई-निविदा-एल-04-25-26; कार्य **का नाम (हिन्दी)**: ट्रेन नंबर 12537/38 (बापुधाम सूपरफास्ट एक्सप्रेस), 15103/04 (बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस.... 05193/94 (छपरा– शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन स्पेशल एक्सप्रेस) की किर्लोस्कर ऑइल एन्जीनस लिमिटेट (KOEL) मेक डीजी सेट (कुल-7 अदद पॉवर कार) की पॉवर कारों के लिए 2 साल के हेतु ए-चेक और एस्कोर्टिंग ड्यूटीज का शेड्यूल रखरखाव।; अनुमानित लागत (₹ में)ः ₹1,62,03,093.47; अमानत राशि (₹ में)ः ₹2,31,000/-; कार्य समापन का समयः 24 माह, निविदा समापन की तिथि एवं समयः 06.06.2025 को 14:30 बजे; निविदा खोलने **की तिथि एवं समयः** 06.06.2025 को 14:30 बजे; क्र.सं. 3.; निविदा सूचना संख्याः ई--निविदा--एल--05--25--26; **कार्य का नाम** (हिन्दी): ट्रेन नंबर 12537 / 38 (बापुधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस), 15103/04 (बनारस इँटरसिटी एक्सप्रेस... 05193/94 (छपरा–शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन स्पेशल एक्सप्रेस) की कम्मिस मेक डीजी सेट (कल-14 अदद पॉवर कार) की पॉवर कारों के लिए 2 साल के हेतु ए—चेक और एस्कोर्टिंग ड्यूटीज का शेड्यूल रखरखाव।; अनुमानित लागत (₹ में)ः ₹3,24,06,078.00; अमानत राशि (₹ में)ः ₹3,12,000/-; कार्य समापन का समयः 24 माह: निविदा समापन की तिथि एवं समय:

www.ireps.gov.in पर जायें। वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/सामान्य वाराणसी मजाधि / विद्यत-33 ट्रेनों में बीड़ी / सिगरेट न पियें

06.06.2025 को 14:30 बजे; निविदा खोलने

की तिथि एवं समयः 06.06.2025 को

14:30 बजे। उपरोक्त ई-निविदा कार्यों के

पूर्ण विवरण एवं निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड, गाजियाबाद। त्रांक-265/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0सं0-60/2025-26

<u>ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना-02</u>

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गाजियाबाद द्वारा निम्नलिखित कार्य की प्रतिषत दर पर निवदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में क्लास ''ए. बी. सी व डी'' मार्ग/भवः श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्य की निविदा डाल सकता है। निविदादात से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज सं0-3 में ॲकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र⁄ जनपद	योजना का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में) जी0एस0टी0 सहित	बिड सिकुरिटि (इ०एम०डी०) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यं पूर्ण करने की अवधि वर्षाऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	वार्ड-सं0-51 काशीराम आवास योजना में गेट नं0-02 से गेट नं0-03 तक काली सड़क एवं दोनो तरफ इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	15.06	0.31	854.00	04 माह
2	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	बी-6 से बी-17 (वार्ड-14 विजयनगर) डेंस रोड एवं दोनों तरफ इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	17.43	0.35	854.00	04 माह
3	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	ग्राम गढीं में मेरठ रोड से वरदान हॉस्पिटल तक सोदान के प्लॉट से मोड़ तक) इंटरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	25.00	0.50	854.00	04 माह
4	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	वाई-35 अकबरपुर बहरामपुर में वेंदप्रकाश के मकान से मनोज चौधरी के मकान तक एवम साईड की कृष्णपाल व ब्रहमपाल वाली गलियों में सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण कार्य।	24.98	0.50	854.00	04 माह
5	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	विधायक नि0 गाजियाबाद	वार्ड नं0-1 बागू क्रिश्चयनगर बागू में विमल के मकान से बाला यादव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.85	0.26	854.00	04 माह
6	मुरादनगर/ गाजियाबाद	विधायक नि0 मुरादनगर	वार्ड-30 रतन एक्लेव गली नं0-3 में (सुनीता के प्लॉट से गाँतम के मकान तक) इं0लो0 टा0 व नाली कार्य।	11.96	0.24	766.00	04 माह
7	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	सांसद नि0 गाजियाबाद	पॉडवनगर आवासीय कॉलोनी में टी पोइंट से मंदिर तक इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	27.835	0.60	944.00	04 माह
8	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	सांसद नि0 गाजियाबाद	मेरठ रोड मनन धाम मेंदिर के कोने से मोरटा में शमशान घाट तक इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	32.595	0.66	944.00	04 माह
9	गाजियाबाद/ गाजियाबाद	उड्डयन विभाग	कम्पोजिट विद्यालय शमशेर, गाजियाबाद में क्लास रूम, टायलेट, छत मरम्मत एव नवीनीकरण आदि का कार्य	34.00	0.68	944.00	04 माह

- ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें प्रकाशित होने की तिथि 29.05.2025 से पूर्व।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें प्रारम्भ होने की तिथि 29.05.2025 प्रात: 10.00 बजे से। ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 05.06.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे तक।
- ई-निविदा की खोलने की तिथि एवं समय:- 06.06.2025 को अपरान्ह 12.30 बजे।
- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-10 के ऑनलाइन के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भं समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निवदादाताओं को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से निगरानी रखें औ नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर जाए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाईट <u>http://etender.up.nic.in</u> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।

UPID 233697 dt 14.05.2025,

(श्याम सन्दर) अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गाजियाबाद।

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." REVENUE Growth of Growth of Growth of **Q4 FY25** Q4 FY25 **Q4 FY25** 13% YoY 31% YoY 23% YoY Growth of Growth of Growth of FY 2025 FY 2025 FY 2025 17% YoY 26% YoY 20% YoY Key Financial Highlights (Growth in %)

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ In Lakhs)

			Quarter Ended	Year Ended	Year Ended	
S. No.	Particulars	31 March 2025	31 December 2024	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	22,248.82	22,496.78	19,584.73	72,951.45	62,028.95
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	2,992.79	4,519.13	2,031.94	9,821.06	7,530.45
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,992.79	4,519.13	2,181.48	9,821.06	7,679.99
4	Net Profit for the period (after Tax, Exceptional and Extraordinary items)	2,251.49	3,438.81	1,835.01	7,486.31	6,222.29
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	2,224.53	3,477.23	1,803.19	7,500.04	6,212.21
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 2/- each)	1,672.76	1,672.76	1,672.76	1,672.76	1,672.76
7	Reserves excluding revaluation reserves				37,636.78	30,973.13
8	Earnings per share (of ₹ 2/- each) (not annualized for quarters)					
	a) Basic	2.69	4.11	2.22	8.95	7.60
	b) Diluted	2.69	4.11	2.22	8.95	7.60

Notes:

Place: New Delhi

Date: 15 May 2025

The above is an extract of the detailed format for the Quarter and Year ended March 31, 2025. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

 $NSE-https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/get_quote/GetQuote.jsp?symbol=CANTABIL\&illiquid=0\&smeFlag=0\&itpFlag=0&$ BSE-https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/ad2c9503-66d0-423b-9f78-77b5166d1a22.pdf Company Website-http://www.cantabilinternational.com/investor_annual&quarterlyresult.html

The financial results for the guarter and year ended 31 March 2025 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Cantabil Retail India Limited ("the Company") at their respective meetings held on 15 May 2025. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified audit opinion on these financial results. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the

Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The business activities of the Company predominantly falls within a single primary business segment viz. "Retail", accordingly there are no separate reportable business segments as per Ind AS 108 "Operating Segments"

The figures for the quarter ended 31 March 2025 and 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year and the unaudited figures upto the nine months ended 31 December 2024 and 31 Decemeber 2023, respectively, which were subject to limited review by the statutory auditors.

The Board of Directors at their meeting held on 10 February 2025 has declared and approved the payment of interim dividend @ ₹ 0.50/- per equity share (25%) of face value of ₹ 2/- per share

The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation. The impact of such reclassification/regrouping is not material to the financials results.

For Cantabil Retail India Limited Chairman and Managing Director



DIN 01110877

Vijay Bansal

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995, Website: www.cantabilinternational.com Tel: +91-11-41414188, Email: info@cantabilinternational.com